

The background features a bright blue sky with a large, smiling sun on the left and a fluffy white cloud on the right. A blue wooden frame surrounds the central text. At the bottom, there is a beach scene with two palm trees, a yellow and pink striped beach umbrella, a small round table, and two matching striped beach chairs on the sand.

SUMMER VACATION

ARMY PUBLIC SCHOOL, KANPUR

HOLIDAY HOMEWORK- CLASS- IV

Dear Students

The much awaited summer break is here! This is the time that you all enjoy the most. Along with all the fun activities that you will do, we would also like to keep you productively occupied with some academic work and activities to enhance your skills and capabilities.

Express your feelings and ideas!!

Wising you all "Happy Holidays!"

English

ACTIVITY- 1

IPL

Paste pictures of any 5 favourite players of IPL Team and write about any 1 of them and draw the logo of your favourite team.



ACTIVITY- 2

Learn poem "Where go the Boats" and make a video of your poem recitation.



ACTIVITY-3

Paste the photograph of your family members and write at least 5 sentences for each using adjectives.



ACTIVITY-4



Make as many new words as possible from the alphabets given below (at least 20 words)

MICRWETBOJOKLYNHWEU

5. Practice one page of handwriting daily. (Make a single line copy of 20 pages.)

Note : Use a scrap book for activity no. 1, 3 and 4.

हिंदी

नोट—समस्त कार्य एक अलग 20 पृष्ठ की पुस्तिका में करें।


- 1— पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ें। किसी भी पढ़ी हुई एक कहानी को अपने शब्दों में अपने माता-पिता और भाई-बहनों को सुनाएँ।
- 2— किन्हीं पाँच महापुरुषों के चित्र चिपकाएँ और उनके आदर्श वाक्य लिखें।
- 3— घर के सभी सदस्योंको प्रतिदिन हिंदी समाचार पत्र पढ़कर सुनाएँ।
- 4— अपनी कक्षा के स्वर और व्यंजनों से शुरू होने वाले पाँच-पाँच बच्चों के नाम लिखें।
- 5— भारत के किसी भी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का चित्र चिपकाएँ एवं उसके बारे में कुछ वाक्य लिखें।

Maths

1. Revise the chapters NUMBERS AND NUMERATION, ROMAN NUMERALS, ADDITION and SUBTRACTION. Practice in MATHS PRACTICE REGISTER.
2. Learn and write the Tables 2-15.
3. The table gives the area in square kilometers of some Indian states as in the year 2016. Use the information to answer the questions that follow.

	<u>State</u>	<u>Area in sq. km</u>
1.	Tamil Nadu	130058
2.	Bihar	94163
3.	Assam	78438
4.	Punjab	50362
5.	Kerala	38863

- a. Write the number of the areas of the first 3 states according to the INDIAN NUMBER SYSTEM.
 - b. Write the number names of the areas of the last 2 states according to the INTERNATIONAL NUMBER SYSTEM.
 - c. Write the place value of 5 in the areas of Tamil Nadu, Punjab, and Kerala.
 - d. Represent the areas of Bihar and Assam on the abacus.
 - e. Write the names of the five states listed in the table in the descending order of their areas.
4. The diameters of the major planets of the solar system are given in the table below. Read the information and answer the questions that follow.



Planet	Mercury	Venus	Earth	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
Diameter (in km)	4879	12104	12742	6779	139822	116464	50724	49244

- Name the largest planet.
- Which is the planet closest in size to Earth?
- Write the names of the planets in ascending order of their sizes.
- Arrange the diameters in descending order using symbols.
- Draw A POSTER OF THE SOLAR SYSTEM.

NOTE : All of the above mentioned MATHS HOLIDAY HW has to be done in a separate single line notebook (20 pages).

Environmental Studies


ACTIVITY-1

E.V.S ACTIVITY

Let's make a Family Tree.

Instructions are as follows.

- Take an old bowl and fill it with mud.
- Now fix a twig or a branch of tree on it.
- Draw and cut different colourful flowers (you can use A4 sheets / glitter sheets)
- Paste pictures of your family members on those flowers.
- You can be creative and can paste 2-3 pictures of different birds as well.



ACTIVITY-2

TAKE A PRINTOUT OF THIS PICTURE,
COLOUR THE PICTURE OR MAKE A CARD
AND GIFT IT TO YOUR FATHER ON FATHER'S DAY i.e.

JUNE 18TH SUNDAY.



ACTIVITY-3

World Environment Day Activity

Let's nurture the nature so that we can have a better future. Hurray! its time to celebrate the World Environment Day on 5th June.. Even a small change can make a huge difference to our world. Are you up for the change challenge? Let's colour the given picture and make this world a beautiful place to live in and protect our environment by following the three R's – Reduce, Reuse and Recycle.



Take a printout of the picture. Colour it and paste in your magazine that you will design.
(Activity -4)

ACTIVITY- 4

DESIGN A MAGAZINE FOR CHILDREN AGED 6 TO 11 YEARS. CHOOSE AN INTERESTING NAME FOR YOUR MAGAZINE. MAKE A COLOURFUL COVER PAGE .IT MUST HAVE AN INDEX. THE MAGAZINE CAN COMPRISE OF 12-15 PAGES. ANY FOUR TOPICS CAN BE CHOSEN OUT OF THESE LISTED BELOW.



1. CURRENT AFFAIRS
2. ADVERTISEMENTS
3. JOKES
4. HEALTH AND HYGEINE
5. AMAZING FACTS
6. BENEFITS OF YOGA
7. POLLUTION
8. BALANCED DIET

ACTIVITY- 5



Make a model/ item- Best out of waste

- A piggy bank with old bottles
- Lamps and candle holders by plastic bottles
- Old newspaper tea coasters
- Recycle saree to make table mats
- Bird feeder
- Whist T-lite holder

ACTIVITY- 6

MAKE A MODEL /ITEM

"SAVE EARTH, SAVE LIFE"



